



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1938 (श०)

(सं० पटना 16) पटना, सोमवार, 9 जनवरी 2017

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना

20 सितम्बर 2016

सं० 1820—श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मशाला, सुतापट्टी, मुजफ्फरपुर, जिला—मुजफ्फरपुर पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक पूर्त न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—1933 है।

यह मुजफ्फरपुर शहर का एक प्रमुख न्यास है, इस न्यास के न्यासी श्री योगेन्द्र कुमार नाथानी को पर्वदीय प्रत्रांक—2523 दिनांक 24.12.1992 द्वारा अधिनियम की धारा—28 (2) (h) (iii) के तहत न्यासधारी के पद से हटा दिया गया एवं पर्वदीय पत्रांक—2524 दिनांक 24.12.1992 द्वारा उप—समाहर्ता प्रभारी भूमि सुधार पूर्वी मुजफ्फरपुर को अधिनियम की धारा—33 के तहत अस्थाई न्यासधारी बनाया गया। अधिनियम में 2007 में हुये संशोधन के अनुसार अस्थाई न्यासी का कार्यकाल एक वर्ष से ज्यादा का नहीं हो सकता है।

पर्वदीय पत्रांक—1513 दिनांक 06.11.12 द्वारा श्री योगेन्द्र कुमार नाथानी को न्यास की भूमि हस्तान्तरण नहीं करने का निर्देश दिया गया था एवं इस न्यास के संचालन हेतु न्यास समिति गठन के बिन्दु पर सुझाव भी माँगा गया था, परन्तु श्री नाथानी की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। श्री नाथानी ने पर्वद से न्यास की सम्बद्धता संबंधी तथ्यों को छुपा कर माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय से न्यास की भूमि हस्तान्तरण हेतु आदेश प्राप्त कर लिया। माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2014 को बिक्री पर रोक लगा दिया गया। इस न्यास से सम्बद्ध चल रहे

वाद जी0 ए0-2946/14 ए0 सी0 आर0 नम्बर-6/13 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2016 को पर्षद के पक्ष में आदेश दिया गया है। इस न्यास से सम्बद्ध वाद माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में अभी लम्बित है।

श्री योगेन्द्र कुमार नाथानी का न्यास के प्रति व्यवहार से न्यास कुव्यवस्था का शिकार है, एवं इस न्यास के संस्थापक की इच्छा का अनुपालन नहीं हो रहा है। न्यास से सम्बद्ध चल रहे मुकदमों की पैरबी में भी कठिनाई हो रही है। न्यास समिति गठन के बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता श्री पी0 एन0 मिश्रा से माँगे गये विधिक सुझाव में उन्होंने इस न्यास की सुव्यवस्था एवं संचालन हेतु न्यास समिति गठन का सुझाव दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्षदीय पत्रांक-1517 दिनांक 12.08.16 द्वारा श्री नाथानी से न्यास समिति गठन के बिन्दु पर अपना पक्ष रखने का आग्रह किया गया, परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। पर्षदीय पत्रांक-1518 दिनांक 12.08.15 एवं पत्रांक-1739 दिनांक 07.09.15 द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से न्यास समिति गठन हेतु सदस्यों का नाम माँगा गया, जो अब तक अप्राप्त है। न्यास की सुव्यवस्था सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं न्यास से सम्बद्ध चल रहे मुकदमों में पैरबी किये जाने कि तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यास समिति गठन के लिए विभिन्न श्रोतों से समाज के कुछ अच्छे लोगों का नाम चयन किया गया है।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक् संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं, संजय कुमार, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-81 (ख) सह पठित धारा-8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास के सुप्रबंधन, सम्यक विकास एवं सुसंचालन के लिए अधिनियम की धारा-32 के तहत निम्नलिखित योजना का निरूपण करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मशाला सुतापट्टी, मुजफ्फरपुर न्यास योजना होगा”** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मशाला सुतापट्टी, मुजफ्फरपुर न्यास समिति होगी”** जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा धर्मशाला की परम्परा एवं नियमों के अनुकूल धर्मशाला की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति को इस धर्मशाला के निचले तल्ला के किरायेदारों से किराया वसूल करना, दुकान को किराया में लगाना तथा धर्मशाला के चल एवं अचल सम्पत्ति, किरायेदारी से सम्बन्धित किसी प्रकार के न्यायालय में लम्बित मामले तथा भविष्य में संस्थित होने वाले मामले का संचालन करना होगा।

9. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी एवं पर्षद को समय-समय पर इससे सम्बद्ध तथ्यों की जानकारी देगी। पर्षद के आदेश के बिना समिति द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे न्यास एवं पर्षद का हित प्रभावित होता हो।

10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे या न्यास हित के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. न्यास समिति न्यास की जमीन/मकान का हस्तांतरण, लीज या अन्य किसी भी रूप में अन्यसंक्रमण पर्षद की अनुमति के बिना नहीं करेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:—

- | | |
|---|--------------|
| (1) श्री जय प्रकाश सिंह, अपर जिला न्यायाधीश (अवकाश प्राप्त),
ग्राम-बैरिया, अहियापुर, मुजफ्फरपुर | — अध्यक्ष |
| (2) श्री रंजीत कुमार साह पे० श्री सुन्दर लाल साह,
बैंक रोड सरैयागंज, मुजफ्फरपुर | — सचिव |
| (3) श्री अरुण चमरिया पे० श्री बेनी प्रसाद चमरिया, सुतापट्टी, मुजफ्फरपुर | — कोषाध्यक्ष |
| (4) श्री विजय कुमार पोद्दार पे० श्री सुरज प्रसाद पोद्दार, भी० आई०
पी० ऐजेन्सी, नागरमल बंका मार्केट, सुतापट्टी, मुजफ्फरपुर | — सदस्य |
| (5) श्री सुबोध कुमार साहु पे० स्व० श्री द्वारिका प्रसाद साहु,
बिहारी भवन आम गोला, मुजफ्फरपुर | — सदस्य |
| (6) श्री राजेश कुमार सर्राफ पे० स्व० लक्ष्मी प्रसाद सर्राफ, हिन्दुस्तान
ऐजेन्सी रानी सती मंदिर, सिकन्दरपुर चौक, मुजफ्फरपुर | — सदस्य |
| (7) श्री देवेन्द्र कुमार चाचान पे० श्री हरि प्रसाद चाचान,
मु०-दुर्गा स्थान, गोला रोड, मुजफ्फरपुर | — सदस्य |

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 21.09.2016 से पाँच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
संजय कुमार,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 16-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>